

अलीगढ़ में जनरल स्टोर पर छापा, पांच लाख रुपये का नकली लेक्मे का माल सीज



अलीगढ़, जागरण संवाददाता। Hindustan Leve की लेक्मे कंपनी के नकली मेकअप के उत्पादन की सूचना पर थाना कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी बाजार स्थित राजा जनरल स्टोर पर कंपनी के अधिकारी व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। जांच के दौरान कंपनी के हूबहू पैकिंग व उसकी डिजाइन के नकली उत्पादनों का जखीरा मिला है। पुलिस की मौजूदगी में पांच लाख रुपये का माल सीज किया गया है।

Hindustan Lever की Cosmetics की अग्रणी कंपनी लेक्मे की बाजार में खपत कम थी। हिंदुस्तान लीवर तीन श्रेणी में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स नियुक्त करती है। ए श्रेणी में खान-पान से जुड़े उत्पादन जैसे किसान सोस व अन्य, दूसरी श्रेणी में साबुन-सर्फ व अन्य व तीसरी श्रेणी में मेकअप। सौंदर्य प्रशाधन से जुड़े उत्पादन लेक्मे तैयार करती है।

Distributors Devendra Bansal ने बताया है कि लेक्मे की लिपिस्टिक, फेसवाश, बाडी लोसन, काजल, नेल पालिश सहित अन्य उत्पादनों की बाजार में खपत कम थी। कंपनी के टेरेटरी सेल्स इंचार्ज देवेश से बाजार में माल के हिसाब से कम खपत पर चिंता व्यक्त करते हुए नकली उत्पादन की आशंका व्यक्त की। कंपनी के जेडएसएम की सिफारिश पर मार्केटिंग के अधिकारियों ने बंगलुरु कानूनी सलाहकार विंग को कार्रवाई के लिए अनुरोध किया। कानूनी प्रतिनिधि सैल ने खुफिया तरीके से अलीगढ़ की दुकानों को खंगालना शुरू कर दिया। सबूत जुटाकर कंपनी को रिपोर्ट की।

दुकान की बेसमेंट में मिला जखीरा

कंपनी की कानूनी प्रतिनिधि नाइनासा डैनी ने बुधवार को सुबह एसएसपी से मुलाकात कर क्षेत्रीय पुलिस का सहयोग मांगा। एसएसपी ने कोतवाली इंस्पेक्टर बृजेश सिंह को निर्देश दिए। इसके बाद साढ़े तीन बजे राजा जनरल स्टोर पर छापा मारा। जांच के दौरान इस दुकान के बेसमेंट में लेक्मे कंपनी की हूबहू पैकिंग में लिपिस्टिक, नेल पालिश, फेस वाश, बाडी लोसन, काजल व अन्य मेकअप का सामान मिला है।